

व्याकरण संबोध**1. निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया पहचानकर अकर्मक या सकर्मक लिखिए—**

- क. मैं एक दिन हॉकी खेलकर आया।सकर्मक क्रिया.....
 ख. चारपाई पर पड़ा रहने दीजिए।अकर्मक क्रिया.....
 ग. कोई दो सप्ताह मुझे स्वस्थ होने में लगे।सकर्मक क्रिया.....
 घ. चंद्रकला फॉर्मिंसी से दवा मँगवा लीजिए।सकर्मक क्रिया.....
 ङ. डॉक्टर साहब पंद्रह-बीस पुस्तकें भी लाए थे।सकर्मक क्रिया.....
 च. एक सज्जन ने उनके हाथों में फ़ीस रखी।सकर्मक क्रिया.....

2. विशेषण बनाइए—

आरंभ	—	आरंभिक		फ़ायदा	—	फ़ायदेमंद		भूख	—	भूखा
मुख	—	मौखिक		खुशबू	—	खुशबूदार		चिंता	—	चिंतित

3. निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए—

- रफूचक्कर होना — रमेश अपनी बॉल उठाकर रफूचक्कर हो गया।
 तिलमिला उठना — सुधीर के कम अंक देखकर पिता जी तिलमिला उठे।
 अक्ल घास चरने जाना — तुम अपना भला-बुरा भी नहीं समझते; तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है।
 दिमाग चाटना — गणित के सवालोंने तो मेरा दिमाग चाट लिया।

4. निम्नलिखित शब्दों को बहुवचन में बदलकर वाक्य में प्रयोग कीजिए—

- डॉक्टर — डॉक्टरों की टीम ऑपरेशन कर रही है। टोपी — दुकान में अनेक रंग-बिरंगी टोपियाँ रखी हैं।
 औषधि — हम स्वस्थ रहने के लिए औषधियों का प्रयोग करते हैं। मरीज़ — डॉक्टर मरीज़ों को ग्राहक समझते हैं।
 दवाई — हमने सभी दवाइयाँ खरीद ली हैं।